

1-अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मूढापाण्डे:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत दिनांक 30.05.2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त नदीम पुत्र महमूद अली निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद कस्बा व थाना भोजपुर, मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 128/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 शराब तस्कर गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि श्री देव सिंह थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-नन्हे पुत्र जाहिद निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद 2-तौसीफ पुत्र छोटे निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 129/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

3-नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2022 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 363/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई, पीडिता की बरामदगी, मेडिकल परीक्षण/बयान एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। उक्त के क्रम में आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि0 श्री ईश्वर चन्द थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त सलमान पुत्र घसीटा निवासी ग्राम मिलक वादुल्ला थाना भोट जिला रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

4-गाली गलौज करने एवं गर्म तेल डालकर चेहरा जलाने का आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2022 को वादी श्री धर्मवीर पुत्र शंकर सिंह निवासी ग्राम मझरा मिश्रीपुर थाना कांठ, मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा पकोडी लेने को लेकर वादी के भाई के साथ गाली गलौज करने तथा कढाई में पक रहे तेल को वादी के भाई के ऊपर फेक देने जिससे वादी को भाई का चेहरा जल जाने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0 201/2022 धारा 326/504 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि0 श्री सुभाष चन्द द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त गौरव पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम मझरा मिश्रीपुर थाना कांठ, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5-जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अवैध तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार थाना मझोला:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2022 को वादी मोनू पाल पुत्र हुकुम सिंह निवासी डबल फाटक थाना कटघर, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा षडयन्त्र रचकर वादी व वादी के दोस्त को जान से धमकी देते हुये जान से मारने की नियत तमंचे से फायर करने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं 410/2022 धारा 120बी/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्रवाई एवं उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के क्रम में आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना मझोला द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्तगण 1-जयवीर पुत्र बुद्ध सिंह 2-सचिन पुत्र जयवीर निवासीगण फत्तेपुर विश्चोई थाना छजलैट, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जयवीर के कब्जे से 01 अवैध तमंचा एवं 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। अवैध तमंचा, कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0सं0 411/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

6-दहेज हत्या का 01 और आरोपी गिरफ्तार थाना छजलैट:-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2022 को वादी शेखर विश्वोई पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर विश्वोई थाना छजलैट, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिये प्रताडित करने एवं उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 98/2022 धारा 498A/304B भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। पूर्व में दिनांक 09.05.2022 को मृतका के पति व दिनांक 16.05.2022 को मृतका की सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना छजलैट द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से आरोपी रामराज सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप ग्राम फतेहपुर विश्वोई थाना छजलैट, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

7-अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना छजलैट:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेसन पाताल” के तहत आज दिनांक 31.05.2022 को उ0नि0 श्री लाजपत सिंह थाना छजलैट द्वारा हमराही पुलिस की मदद से अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम खानपुर मुजफ्फरपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 127/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।